

# PREMIER POLYFILM LTD

MNFERS VINYL FLOORING, PVC SHEETING, PVC GEOMEMBRANES, PVC ARTIFICIAL LEATHER  
Off & Fac: A-13 INDUSTRIAL AREA, SIKANDRABAD, DISTT BULANDSHAHAR (U.P.) 203205 INDIA  
Tel: 0120-3364569, 2896986/87 FAX: +91-1166173349  
E-mail: premierpoly@premierpoly.com Website: www.electromat.in

PPL/SECT/2023-2024

DATED: May,17 2023

BSE LIMITED

NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LTD

**SUBJECT: NEWSPAPER PUBLICATION FOR TRANSFER OF EQUITY SHARES TO IEPF AUTHORITY**

**REGARDING COMPANY CODE : NSE : PREMIERPOL, BSE 514354**

Dear Sir/Madam,

In compliance with the provision of Regulation 47 and other applicable provisions of SEBI Listing Regulations 2015, Please find enclosed herewith the copies of Newspaper advertisement Notice published in Financial Express, all editions and Jansatta, Delhi edition on **May,13 2023** intimating the Transfer Of Equity Shares Of The Company To Investor Education And Protection Fund (IEPF) .

This is for your record and information.

Thanking you,

Yours faithfully,  
For PREMIER POLYFILM LTD.,

Amitaabh  
Goenka  
Amitaabh Goenka  
(Managing Director & CEO)

Enclosed : As above

PLC 2023-24 POLY FLOOR PLATE HOUSE 36 COMMUNITY CENTER KAILASH COLONY EXTN. (ZAMROODPUR) NEW DELHI-110048  
(CIN) I125205DL1002PLC049590



POLYFABS  
POLYMER FABRICATOR



ELECTROMAT®  
High Voltage Insulating Mats

AQUALINING  
PVC GEOMEMBRANE LINING SYSTEM



\* Uploaded on BSE on 17/05/2023

# Hospital First HOSPITALS LIMITED

Companies Act, 1956, pursuant to a certificate of incorporation dated November 18, 2002, issued by the Registrar of Companies in the registered office of our Company, see "History and Certain Corporate Matters" on page 213 of the DRHP as on May 11, 2023.

Website: www.jupiterhospital.com  
 Registered Office: Marg, Mulund (West), Mumbai - 400 080, Maharashtra, India  
 Registered Office: Marg, Mulund - 400 601 Maharashtra, India  
 Phone: +91 22 2172 5623; Email: cs@jupiterhospital.com

FINANCIAL  
EXPRESS

13-05-2023

Pg No ->  
13

## AND WESTERN MEDICAL SOLUTIONS LLP

FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [●] PER EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ 6,150.00 MILLION ("FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR 100,000 EQUITY SHARES BY DEVANG VASANTLAL GANDHI (HUF) AGGREGATING UP TO ₹ [●] MILLION, 100,000 EQUITY SHARES BY NITIN THAKKER JOINTLY WITH ASHA THAKKER AGGREGATING UP TO ₹ [●] MILLION, 100,000 EQUITY SHARES BY MODI FAMILY PRIVATE TRUST AGGREGATING UP TO ₹ [●] MILLION, UP TO 400,000 EQUITY SHARES BY RI CAPITAL MARKET LIMITED AGGREGATING UP TO ₹ [●] MILLION, UP TO 200,000 EQUITY SHARES AT JOINTLY WITH DR. HASMUKH RAVAT AGGREGATING UP TO ₹ [●] MILLION, UP TO 40,000 EQUITY SHARES BY SHREYAS RAVAT JOINTLY WITH SANGEETA RAVAT AGGREGATING UP TO ₹ [●] MILLION, THE OFFER FOR SALE, THE OFFER SHALL CONSTITUTE [●]% OF THE POST-

OFFER FOR SALE, AGGREGATING UP TO ₹ 1,230.00 MILLION, AT ITS DISCRETION, PRIOR TO THE ISSUE OF THE PRE-IPO PLACEMENT, IF UNDERTAKEN, WILL BE AT A PRICE TO BE DECIDED BY OUR COMPANY. THE SIZE OF THE FRESH ISSUE WILL BE REDUCED TO THE EXTENT OF SUCH PRE-IPO PLACEMENT, SUBJECT TO THE SEBI (PRE-IPO PLACEMENT) REGULATIONS, 1957, AS AMENDED. ON UTILIZATION OF PRE-IPO PLACEMENT SUBSCRIBERS THAT THERE IS NO GUARANTEE THAT OUR COMPANY MAY BE LISTED ON THE STOCK EXCHANGES.

ES. THE PRICE BAND AND THE MINIMUM BID LOT WILL BE DECIDED BY OUR COMPANY AND THE CONDITIONS OF [●] (A WIDELY CIRCULATED ENGLISH NATIONAL DAILY NEWSPAPER), ALL EDITIONS OF THE DAILY NEWSPAPER, MARATHI BEING THE REGIONAL LANGUAGE OF MAHARASHTRA WHERE OUR COMPANY IS REGISTERED, AND NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED (NSE) AND BSE LIMITED ("BSE") AND NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED (NSE) THROUGH THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND

the Price Band, subject to the Bid / Offer Period not exceeding 10 Working Days. In cases of force majeure, the Bid / Offer Period for a minimum of three Working Days, subject to the Bid / Offer Period of the Stock Exchanges, by issuing a public notice, and also by indicating the change on the website.

Regulation 31 of the SEBI ICDR Regulations. The Offer is being made through the Book Building Process in proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIBs") (the "QIB Portion"), provided that our Company allocation will be on a discretionary basis by our Company, in consultation with the BRLMs, in accordance with the bids being received from the domestic Mutual Funds at or above the price at which allocation is made to Anchor Investor Equity Shares shall be added to the QIB Portion (other than the Anchor Investor Portion) (the "Net QIB Portion") being received at or above the Offer Price, and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation to Non-Institutional Bidders ("Non-Institutional Bidders") up to ₹ 1,000,000 and two-thirds of the Non-Institutional Portion shall be available for allocation to Non-Institutional Bidders in the other sub-category of the Non-Institutional Portion in accordance with the "Retail Portion", in accordance with the SEBI ICDR Regulations. Participants in this Offer only through the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process and shall not be blocked by the Self Certified Syndicate Banks ("SCSBs") or pursuant to the UPI details, see "Offer Procedure" on page 359 of the DRHP.

Company is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, dated May 10, 2023 with SEBI on May 11, 2023.

of at least 21 days, from the date of filing by hosting it on the websites of SEBI at www.sebi.gov.in, the Stock Exchange of India, Edelweiss Financial Services Limited at: www.edelweissfin.com and JM Financial Limited at: www.jmfin.com, with respect to disclosures made in the DRHP. The public is requested to send a copy of the comments to the SEBI. All comments must be received by SEBI and/or the Company and/or the BRLMs and/or the filing with SEBI.

Investors are advised to read the risk factors carefully and the Offer, including the risks involved. The Equity Shares in the Offer have not been recommended or endorsed by the RoC and must be made solely on the basis of such RHP as there may be material changes in the RHP.

of Association, see "History and Certain Corporate Matters" on page 213 of the DRHP.

REGISTRAR TO THE OFFER	
<b>FINANCIAL</b>	<b>KFINTECH</b> EXPERIENCE TRANSFORMATION
Jupiter Life Line Hospitals Limited Marg, Appasaheb Marathe Marg Mulund West, Mumbai 400 025 India Phone: +91 22 6630 3030 Email: jupiterlife ipo@jmfli.com Grievance email: grievance.ibd@jmfli.com Website: www.jmfli.com Contact person: Prachee Dhuri Registration no: INM000010361	KFin Technologies Limited Selenium Tower B, Plot No. 31 & 32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad- 500 032 Telangana, India Telephone: +91 40 6716 2222 Email: jupiterlife.ipo@kfintech.com Investor grievance email: einward.ris@kfintech.com Website: www.kfintech.com Contact person: M Murali Krishna SEBI registration no: INR000000221

For JUPITER LIFE LINE HOSPITALS LIMITED

On behalf of the Board of Directors

Sd/-

## PREMIER POLYFILM LTD.

Regd. Office: 305, III Floor, Elite House, 36, Community Centre, Kailash Colony Extn., Zamroodpur, New Delhi -110048.

CIN: L25209DL1992PLC049590, Phone : 011-29246481

Email: compliance.officer@premierpoly.com Website: www.premierpoly.com

### NOTICE

#### TRANSFER OF EQUITY SHARES OF THE COMPANY TO INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND (IEPF)

Pursuant to provisions of Section 124 of the Companies Act, 2013 ("Act") read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, ("IEPF Rules"), as amended, notice is hereby given that all the shares in respect of which dividend has not been paid or claimed by the shareholders for seven consecutive years or more, shall be transferred by the Company in the name of IEPF.

In compliance with the requirements, as set out in IEPF Rules, the Company through letter dated 10-05-2023 has communicated individually to concerned shareholders whose shares are due for transfer to the IEPF in the financial year 2023-2024, at their latest available addresses, to claim their unclaimed/unpaid dividends. All the relevant details of such shareholders are uploaded on website of the Company (www.premierpoly.com) under the link: http://www.premierpoly.com/IEPF.html.

The details uploaded by Company on its website shall be deemed as adequate notice in respect of transfer of shares to IEPF. It is also to inform that all the benefits accruing on such shares i.e. dividends, bonus shares etc. shall also be transferred to IEPF in compliance to provisions of the IEPF Rules.

Shareholders are advised to claim the unclaimed dividend amount starting from the year 2015-2016 onwards by sending a formal letter mentioning beneficiary account no. or folio no. along with self-attested copy of PAN Card and address proof immediately to M/s Beetal Financial & Computer Services Private Limited, Registrar and Share Transfer Agent of the Company (RTA). In case the Company/RTA does not receive any communication from the concerned shareholders by 16 October, 2023 or such other date as may be extended, the Company shall proceed to transfer the shares to IEPF, without any further notice, as per procedure set out in IEPF Rules. The concerned shareholders, holding shares in physical form and whose share are liable to be transferred to IEPF Authority, may note that the Company would be issuing new share certificate(s) in lieu of the original share certificate(s) held by them for the purpose of dematerialization and transfer of shares to IEPF Authority as per the Rules and upon such issue, the original share certificate(s) which stands registered in their name will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable.

Shareholders may please note that the shares and unclaimed amounts transferred to the IEPF can be claimed back from the IEPF after following the procedure prescribed under IEPF Rules. Please note that no claim shall lie against the Company/RTA in respect of unclaimed amount and shares transferred to IEPF pursuant to provisions of said rules.

For any queries or clarifications on the subject matter, shareholders may contact:

<b>Company Secretary</b> Premier Polyfilm Limited 305, III Floor, Elite House, 36 Community Centre, Kailash Colony Extn., Zamroodpur, New Delhi -10048. Phone: 011-29246481 Email: compliance.officer@premierpoly.com	<b>General Manager</b> Beetal Financial & Computer Services (P) Ltd. Beetal House, 3rd Floor, 99 Madangir, New Delhi - 110062 Phone: 011- 26051064 & 26051064, Fax: 011-29961284 Email: beetalrta@gmail.com
---	--

Shareholders are requested to keep their email ID and other relevant details updated with their Depository Participant (DP), in case shares are held in dematerialized form and with Company/RTA, in case shares are held in physical form.

Place: New Delhi

Date: 12.05.2023

For Premier Polyfilm Ltd.

Sd/-

Managing Director

## BENGAL TEA & FABRICS LIMITED

CIN: L51909WB1983PLC036542

Regd. Off: Century Towers, 45 Shakespeare Sarani, 4th Floor, Kolkata-700 017

Telefax : 91-33 2283 6416/17, E-mail: investor@bengaltea.com

Website: www.bengaltea.com

#### NOTICE FOR TRANSFER OF EQUITY SHARES TO INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND

This Notice is published pursuant to the provisions of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, as amended ("the Rules") and notified by the Ministry of Corporate Affairs.

Pursuant to Section 124(6) of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rule 6 of the Rules, all shares in respect of which dividends remain unclaimed/unpaid for seven consecutive years or more, shall be transferred by the Company to the Demat Account of IEPF Authority.

Accordingly, all shareholders whose dividend for the financial year 2015-16 onwards has remained unpaid / unclaimed the corresponding shares of the face value of Rs 10/- each in respect of such shareholders therefore will be transferred to Demat Account of IEPF Authority in the following manner:

- In case of shares held in Physical form, by issuance of New Share certificate and thereafter transferring the shares to Demat Account of IEPF Authority. Accordingly, the original share certificate(s), which stand registered in your name would stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable.
- In case of shares held in Demat Form, by transfer of shares directly to Demat Account of IEPF Authority through the Depository participants as per Rules.

Individual communication in this regard has been sent through registered post on 11th May, 2023 to the registered address of the concerned shareholders whose shares are liable to be transferred to the IEPF Authority. The full details of such shareholders having uncashed dividends and shares due for transfer has been given on the website of the Company [www.bengaltea.com](http://www.bengaltea.com)

Notice is hereby given to all such shareholders to make an application to the Company / Registrar & Share Transfer Agents by 14th August, 2023 with a request for claiming the unpaid dividend so that the shares are not transferred to the IEPF. In case the company does not receive any communication from the concerned shareholders by the due date, the Company shall with a view to comply with the requirements set out in the Rules, transfer the shares to the Demat Account of IEPF, without any further notice. No claim shall lie against the Company in respect of Unclaimed Dividend/shares transferred to IEPF in compliance with the Rules.

Any person, whose shares and unclaimed dividends have been transferred to the Fund, may claim the shares/dividends from the

